

Lucknow City Heat Action Plan



अत्यधिक गर्मी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है।

प्यास ना होने पर भी गर्मी के दिनों में बार-बार पानी पीयें।

सतर्क रहें - स्वस्थ रहें !

